

Ref: JIL:SEC:2016:129

25th October, 2016

The Manager,
Listing Department,

National Stock Exchange of India Ltd.

“Exchange Plaza”, C-1, Block G,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400 051

BSE Limited

25th Floor, New Trading Ring,
Dulal street, Fort,
Mumbai – 400 001

Scrip Code: JPINFRATEC

Scrip Code: 533207

Sub: Information Pursuant to Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015

Sir,

In terms of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of Notice Published on 23.10.2016 in the Newspaper “Business Standard (English)” and “Rashtriya Sahara (Hindi)” in terms of the provisions of Section 201 of the Companies Act, 2013.

Kindly take the same on record

Thanking You,

Yours faithfully
For **Jaypee Infratech Limited**



(Suman Lata)
Company Secretary &
Compliance Officer

Encl: As above

नीची नज़रों में नया जेपी ग्रुप नहीं

इंडियन रेलवे का सामर्थ्य या जरूरत मंद रकत बैंकों को दिया गया।

पूर्वी दिल्ली। गाँधीपुर स्थित राजीव गांधी सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल में एक नर्सिंग स्टाफ का मोबाइल चोरी करना दो चोरों पर उस वक्त भारी पड़ गया, जब मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें पकड़कर जमकर पीट डाला। लोगों ने चोरों को अधमरा करके पुलिस के हवाले कर लिया। जाँची हुई इक्लेव थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों की पहचान वालिद और वसीम अहमद के रूप में हुई है।

शिक्षायातकर्ता लखन ने बताया कि वह तुलसी निकेतन, साहिबाबाद में रहता है और अस्पताल में बतौर नर्सिंग अर्दली तैनात है। वृहस्पतिवार तड़के करीब चार बजे उसकी ड्यूटी की मोबाइल विभागा में थी। उसने एक कमरे में अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया था। इस दौरान उसने देखा कि दो युवक कमरे के आसपास मंडरा रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही कमरे में आकर देखा तो मोबाइल गायब था। साथ ही दोनों युवक भी वहाँ से निकल चुके थे। लखन ने सुरक्षा गार्डों को फोन किया। सुरक्षागार्डों ने दो युवकों को इनामा कार समेत गेट से निकलते देखा तो शोर मचा दिया। लोगों दोनों युवकों को बाहर निकालकर पीटना शुरू कर दिया। उनके पास से चोरी किया मोबाइल बरामद कर पुलिस को सौंप दिया। एसएनबी

मंगतराय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पतला मोदीनगर, जिला-गाजियाबाद

प्रेस विज्ञापित

प्राइमरी अनुभाग में सहायक अध्यापिकाओं के लिए दो पदों (1 सामान्य जेपी तथा 1 अनुसूचित जाति) हेतु शासनादेशानुसार देय वेतनमान क्रम में माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. द्वारा निर्धारित आदर्श प्राप्त महिला आवेदकों के प्रथम पत्र, पूर्ण योग्यता का उल्लेख करते हुए उरोक्त पत्र पर मोबाइल नम्बर के साथ सारे कागज पर प्रबन्धक, मंगतराय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पतला के पत्र पर अभिलिखित हैं आवेदन रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही इस विज्ञापन की तिथि से पंद्रह दिवस के अन्दर प्राप्त हो जाने चाहिये। सहायक हेतु सम्पूर्ण प्रमाण पत्र लेकर दिन सोमवार, 07 नवम्बर 2016 को प्रातः 10 बजे कॉलेज परिसर में उपस्थित हो। अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जाएगी। सहायक हेतु कोई भता देय नहीं होगा।
जी-2036 (प्रबंधक) मंगत राव कन्या उ.पा.विद्यालय पतला (गाजियाबाद)

पारजना में बीमारों से जुड़े कामजाँ जाँव के लिए मांगा है। पुलिस ने बताया कि मामला संदेहास्पद प्रतीत हो रहा है। वजह से छात्रवीन आवश्यक है।

सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत, दो घायल

नई दिल्ली। तिलक मार्ग इलाके में ज सड़क हादसे में एक स्कूटी सवार की जान चली गई, वहीं स्कूटी पर बैठे दो युवक घायल हो गए। घायलों आरएमए अस्पताल ले जाया गया जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें लुटटी दे दी गई। युवक की शिनाख्त आदिल के तौर पर व गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, जबकि हादसे में घायल दोनों युवकों की पहचान थान सिंह उर्फ पर तथा तनवीर रूप में हुई। हादसे के बाद आरोपी चालक टूक लेकर फरार हो गया पुलिस ने बताया कि यह हादसा शुक्रवार रात करीब पीने एक बजे बजे हुआ।

उस वक्त एक स्कूटी पर सवार तीन व्यक्ति तेजी से रिंग रोड होतेहूए भैरो रो से गुजर रहे थे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने पुलिस को बताया कि अचानक स्कूटी के आँचल वहीं कार ने ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगा ही तीनों कार से जा भिड़े और सड़क पर गिर गए। इस बीच पीछे से आ रहे टूक एक युवक को कुचला और स्कूटी रामे घसीटता ले गया। आगे जाकर स्कूटी अलग हुई तो चालक टूक समेत फरार हो गया। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि काफी दूर तक टूक स्कूटी समेत युवक को घसीटते हुए ले गया। मामले की सूचना पीसीआर को दी गई। तीनों को उपचार के लिए ले गई जहाँ आदिल को मृत घोषित कर दिया गया बाकी अन्य को उपचार के बाद लुटटी दे दी गई। एसएनबी

रलवे सूचना

सं. एच/98/टाई-अप/पी.एच./आरएनवाई

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पी.सी. रेलवे, रिंगिया मंडल, पू.सी. रेलवे के रिंगिया मंडल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अंतर्गत रिंगिया, न्यू बंगालगंज और रंगापाड़ा स्थित पी.सी. रेलवे के प्रत्येक हॉस्पिटल के लिए आम नृत्य चिकित्सा, ओ एंड जी, रेडिओलॉजी, निम्न चिकित्सा, ईएमटी और सोडिमीन में से प्रत्येक में विशेषज्ञता रखनेवाले गैरो-दर-गैरी के आधार पर दो चिकित्सकों को नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। नियम एवं शर्तें-

1. रोहिंगीय योग्यता एवं अनुभव: (क) मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री/पोस्टर डॉक्टोरल डिग्री। (ख) स्नातकोत्तर डिग्री के मामले में विशेषज्ञता से संबंधित व्यावसायिक कार्य में न्यूनतम 3 वर्षों का अनुभव। 2. प्रति मामले पारिश्रमिक की चौबड़ा दर परामर्श शुल्क: (क) प्रथम मामला: 1 (क) पी.सी. रेलवे हॉस्पिटल, रिंगिया, न्यू बंगालगंज एवं रंगापाड़ा से 10 किमी. के भीतर रहनेवाले चिकित्सकों के लिए - रु. 450.00। (ख) पी.सी. रेलवे हॉस्पिटल, रिंगिया, न्यू बंगालगंज एवं रंगापाड़ा से 10 किमी. के बाहर रहनेवाले चिकित्सकों के लिए रु. 500.00। 3. उसी दौर के दौरान बाढ़ वाले मामले के लिए रु. 100.00। (ख) छोटी सर्जरी - रु. 2000.00। (ग) बड़ी सर्जरी - रु. 5000.00। (घ) स्पेशल सर्जरी - रु. 8000.00। 3. नियम एवं शर्तों पर अगला स्पष्टीकरण मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, पी.सी. रेलवे पॉलीक्लीनिक, रिंगिया, कामरूप (आर.), असम-781365, के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। मोबाइल: 9957554500। 4. चयनित चिकित्सकों को उचित समय पर सूचित किया जाएगा। 5. सारे कागज पर आवेदन पत्र, संपर्क नंबर, पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ एवं कागजात की सत्यापित प्रतियाँ (एमओपीए) का प्रमाण-पत्र, स्नातकोत्तर डिग्री का प्रमाण-पत्र, पोस्ट डॉक्टोरल डिग्री का प्रमाण-पत्र (जहाँ लागू हो), पंजीयन प्रमाण-पत्र, अतिरिक्त योग्यता एवं अनुभव, उस प्रमाण-पत्र के साथ नीचे दिये गये पत्र पर जमा करना होगा। 6. पत्रचार का पता: मुख्य चिकित्सा प्रधीक्षक, पी.सी. रेलवे पॉलीक्लीनिक, रिंगिया, कामरूप (आर.), असम-781365। 7. आवेदन प्राप्ति का अंतिम तिथि: 22-11-2016 को अपराह्न 01.00 बजे। 8. पी.सी. रेलवे की अधिकारिक वेबसाइट <http://www.nfrailway.com> पर उपलब्ध। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/पिंगिया



जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड
 सी आई एन : L45203UP2007PLC033119
 पंजीकृत एवं कोर्पोरेट कार्यालय : लोणार - 128, चोरबा - 201304 (उ.प्र.)
 टूरफोन : +91(120) 4609000 फैक्स : +91(120) 4063122
 वेबसाइट : www.jaypeeinfotech.com ई मेल : jpinfra@investor@jaindia.co.in

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 201(2)(बी) के अन्तर्गत सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 201(2)(बी) के अनुसारण में कंपनी को सदस्यों को एलड द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी, नामांकन एवं पारिश्रमिक कमेटी और निदेशक मंडल, दोनों द्वारा, 11 फरवरी, 2016 को हुई उनकी बैठक में पारित और 30 सितंबर, 2016 को हुई वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों के संदर्भ में, कंपनीज (प्रबंधकीय सदस्यों के नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 और अन्य सभी लागू प्रक्रियाओं, अगर कोई हों, के साथ, कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची V को पढ़े जाते हुये कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 196, 197, 200, 201 एवं 203 के अंतर्गत, केन्द्र सरकार को अनुसूची V में प्रदान सीमा के अनुरूप, श्री समीर गौड़ (डिन:00009496) को 1 अगस्त, 2016 से 31 अगस्त, 2016 तक प्रभावी एक महीने की अवधि के लिए कंपनी के सह प्रबंध निदेशक के रूप में नामित पूर्णकालिक निदेशक के रूप में तथा श्री सविन गौड़ (डिन:00387718) को 10 सितंबर, 2016 से 09 सितंबर, 2019 तक प्रभावी 3 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक एवं सीएफओ के रूप में नियुक्त और पारिश्रमिक के मुगताम के प्रस्ताव को अनुमति करने हेतु आवेदन करना चाहती है।

शुभे जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड
 स्थान : नोएडा, सुपान डटा
 दिनांक : 22 अक्टूबर, 2016, कंपनी सचिव
 सदस्यता क्रमांक एफ सी एस-4394

दो संधमार गिरफ्तार

नई दिल्ली। पुलिस ने दो संधमारों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से लैपटॉप व स्कूटी बरामद हुई है। आरोपियों की पहचान देवली निवासी विपिन कुमार व संगम विहार निवासी विजय कुमार के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक दस अक्टूबर को महरोली इलाके के फ्रीडम फाईटर एंक्लेव में संधमारी की एक कारदात हुई थी। यहाँ से संधमार केश और हजारा की हजारा की ज्वेलरी चुरा ले गए थे। एक सूचना के आधार पर पुलिस ने बांध रोड संगम विहार में दो युवकों को धर दबोचा। इन दोनों का पुराना अपराधिक रिकार्ड है। एसएनबी

दिल्ली जल बोर्ड : रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार
 कार्यपालक अभियंता (एनडब्ल्यू)- II का कार्यालय
 एच-ब्लॉक : सेक्टर-15 : रोहिणी : दिल्ली-110089
 फोन : 27851040 ई-मेल - sudhirchauhan1994@gmail.com
 प्रेस निआसू सं. 51 (2016-17)

क्र. सं.	कार्य का नाम	निविदा हेतु नियत राशि	बरोहर राशि/ निविदा शुल्क	टेंडर प्रोक्वोरमेंट सॉल्यूशन जारी करने की तिथि/ आई.डी. सं.	ई-प्रोक्वोरमेंट सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1	ईई(एनडब्ल्यू)-II के अधीन एसी-06 रिठाला में सी-ब्लॉक अद्यत्तिका सेक्टर-1, रोहिणी में हातेप्रस्त मैनुहोल्स का पुनर्निर्माण।	रु. 22,92,462/-	रु. 45,900/- रु. 500/-	21-10-2016-2016.djb 116809_1	04-11-2016 अप 2:00 बजे तक

इस संघ में अतिरिक्त विवरण <https://govtprocurement.delhi.gov.in> पर देखा जा सकता है। पीआरओ (जल) द्वारा जारी

दो वाहन चोर बंदी

नई दिल्ली। पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले एक गिरोह के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान रमेश मीना व महेन्द्र कुमार के तौर पर हुई है, जबकि रमेश मीना मंडवली थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की छह लम्बरी कारें व दो मोटरसाइकिलें बरामद की है। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से वाहन चोरी के 38 मामले सुलझाने का दावा किया है। साइब डिस्ट्रिक्ट के एक पुलिस अधिकारी ने बताया साइब कैम्पस इलाके में हुई एक वाहन चोरी के मामले में रमेश मीना लम्बरी कार चोरों के रूप में